

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

दिल्ली, 05 मई, 2016

[रा. रा. रा. क्षे. दि. सं. 29

No. 83]

DELHI, THURSDAY, MAY, 05, 2016

[N.C.T.D. No. 29

भाग IV

Part IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग
STATE ELECTION COMMISSION
अधिसूचना
NOTIFICATION
दिल्ली, 02मई, 2016

Delhi, the 02nd May, 2016

संख्या एफ.4(13)उ.चु./ओएसडी-1/विधि/रा.चु.आ./2016/1501.—दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियमावली 2012 के नियम 25, के उपनियम (2) के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित को सर्व-साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है:-

No.F.4(13)BYE/OSD-I/legal/SEC/2016/1501.— In pursuance of sub-rule(2) of the rule 25 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, the following is published for general information: (यहां पर संलग्न प्रपत्र 7वार्ड 44, 55, 67, 86, 124, 126, 136, 166, 168, 176, 199, 214, 238 के लिए दिए गए क्रमानुसार मुद्रित करें)

(Here print attached Form-7 in respect of Wards: 44, 55, 67, 86, 124, 126, 136, 166, 168, 176, 199, 214, 238 in the above serial order).

हः
राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयोग

Sd/-
RAKESH MEHTA, State Election Commissioner

फार्म-7

FORM - 7

निर्वाचनलड़नेवालेअभ्यर्थियों की सूची

List of Contesting Candidature

देखेंनियम 24

[See Rule 24]

वार्ड संख्या

Ward No. 44

वार्डकानाम

Ward Name QUAMMRUNDDIN NAGAR

क्रम संख्या S.No	अभ्यर्थियों के नाम Name of Candidate	अभ्यर्थियों के पते Address of Candidate	दलसम्बद्धता Party Affiliation	आवंटितचिन्ह Symbol allotted
1. मान्यताप्राप्तराष्ट्रीय राजनैतिकदलों के अभ्यर्थी I. Candidate of Recognized Political Parties at National Level.				
1	अशोकभारद्वाज ASHOK BHARDWAJ	आर. जेड. डी-133, निहालविहार, नॉगलोई, दिल्ली-110041 RZD-133, NIHAL VIHAR, NANGLOI, DELHI-110041	इंडियननेशनलकांग्रेस INDIAN NATIONAL CONGRESS	हाथ HAND
2	अनिलसिन्हा ANIL SINHA	आर. जेड. जी.-25, निहालविहार, नॉगलोई, दिल्ली-110041 RZG-25, NIHAL VIHAR, NANGLOI, DELHI-110041	भारतीय जनतापार्टी BHARATIYA JANATA PARTY	कमल LOTUS
2. राज्य दलों के अभ्यर्थी II- Candidate of State Parties.				
3	अरुणकुमार सिंह ARUN KUMAR SINGH	म. न. 90, ब्लॉक-आर. जेड. बी., निहालविहार, नॉगलोई, दिल्ली-110041 HOUSE NO. 90, BLOCK- RZB, NIHAL VIHAR, NANGLOI, DELHI-110041	आमआदमीपार्टी AAM AADMI PARTY	झाडू BROOM
4	दिनेशचौधरी DINESH CHOUDHARY	आर. जेड. / ए-253, निहालविहार, नॉगलोई, दिल्ली-110041 RZ/A-253, NIHAL VIHAR, NANGLOI, DELHI-110041	अखिलहिन्दफारवर्डब्लॉक ALL INDIA FORWARD BLOC	शेर LION
3. निर्दलीय उम्मीदवार III- Independent.				
5	अरविन्दकुमार ARVIND KUMAR	आर. जेड. ई-254 बी, निहालविहार, नॉगलोई, दिल्ली-110041 RZ E-254 B, NIHAL VIHAR, NANGLOI, DELHI-110041	निर्दलीय INDEPENDENT	कैमरा CAMERA

6	इस्लाम ISLAM	आर. जेड. एच.-129, निहालविहार, नॉगलोई, दिल्ली-110041 RZ H-129, NIHAL VIHAR, DELHI-110041	निर्दलीय INDEPENDENT	सिलाई की मशीन SEWING MACHINE
7	मनजीत MANJEET	21-ए, ब्लॉक-ए, शिवरामपार्क, नॉगलोई, दिल्ली-110041 21-A, BLOCK-A, SHIV RAM PARK, NANGLOI, DELHI-110041.	निर्दलीय INDEPENDENT	अलमारी ALMIRAH
8	महेशकुमार MAHESH KUMAR	ए-20, ब्लॉक-ए, अम्बिका एन्क्लेव, फेज-2, निहालविहार, नॉगलोई, दिल्ली-110041 A-20, BLOCK-A, AMBIKA ENCLAVE, PH-II, NIHAL VIHAR, NANGLOI, DELHI- 110041	निर्दलीय INDEPENDENT	गैसकाचूल्हा GAS STOVE
9	वेदप्रकाश VED PRAKASH	ए-255, अम्बिका एन्क्लेव, निहालविहार, नॉगलोई, दिल्ली-110041 A-255, AMBIKA ENCLAVE, NIHAL VIHAR, NANGLOI, DELHI-110041	निर्दलीय INDEPENDENT	गैससिलेण्डर GAS CYLINDER
10	अर्जुनवर्मा ARJUN VERMA	ई-1 / 388, शिवरामपार्क, नॉगलोई, दिल्ली-110041 E-1/388, SHIV RAM PARK, NANGLOI, DELHI-110041	निर्दलीय INDEPENDENT	कप औरप्लेट CUP & SAUCER
11	चक्रदत्त शर्मा CHAKRA DUTT SHARMA	सी-45-ए, अध्यापक नगर, नॉगलोई, दिल्ली-110041 C-45-A, ADHYAPAK NAGAR, NANGLOI, DELHI-110041	निर्दलीय INDEPENDENT	ऑटो-रिक्शा AUTO- RICKSHAW

12	त्रिलोकचन्द TRILOK CHAND	12, ब्लॉक-बी, अम्बिका एन्क्लेव, निहालविहार, फेज-2, नॉगलोई, दिल्ली-110041 12, BLOCK-B, AMBICA ENCLAVE, NIHAL VIHAR, PH-II, NANGLOI, DELHI- 110041	निर्दलीय INDEPENDENT	बाल्टी BUCKET
----	-----------------------------	---	-------------------------	------------------

(AJIT, IAS)
(अजित, आई. ए. एस.)
RETURNING OFFICER
निर्वाचन अधिकारी
WARD NO. 44 (QUAMMRUNDDIN NAGAR)
वार्ड संख्या-44 (कमरुद्दीननगर)

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक :
Date : 30.04.2016

FORM-7
List of Contesting Candidates
(See Rule 24)

Ward No. 55

Bye-Election to the North Delhi Municipal Corporation from Ward No.55, Shalimar Bagh(North)

Sl. No.	Name of Candidate	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5
(i)- CANDIDATES OF RECOGNISED POLITICAL PARTIES AT NATIONAL LEVEL				
1	भूपिंदर मोहन भंडारी BHUPINDER MOHAN BHANDARI	बीएच -22 (पूर्व) शालीमार बाग BH-22 (EAST) SHALIMAR BAGH	भारतीय जनता पार्टी BHARATIYA JANATA PARTY	कमल LOTUS
2	भागमल शर्मा BHAGMAL SHARMA	मकान नं. 325, गली नं 2, शालीमार गांव, दिल्ली -110088 H.NO.325, GALI NO. 2, SHALIMAR VILLAGE, DELHI - 110088	इंडियन नेशनल काँग्रेस INDIAN NATIONAL CONGRESS	हाथ HAND
(ii) CANDIDATES OF STATE PARTIES				
3	अनविका मित्तल ANVIKA MITTAL	82, दूसरी मंजिल, ब्लॉक बीपी (पश्चिम), शालीमार बाग, दिल्ली 82, 2ND FLOOR, BLOCK BP(WEST), SHALIMAR BAGH, DELHI	आम आदमी पार्टी AAM AADMI PARTY	झाड़ू BROOM

(iii) INDEPENDENTS				
4	राजेश गुप्ता RAJESH GUPTA	सी -2 / 136, पश्चिम एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली 110034 C-2/136, WEST ENCLAVE, PITAMPURA, DELHI- 110034	निर्दलीय INDEPENDENT	बिजली का खंभा ELECTRIC POLE
5	दीपक चौधरी DEEPAK CHAUDHARY	40, साहीपुर गांव शालीमार बाग दिल्ली-110088 40, SAHIPUR VILLAGE SHALIMAR BAGH DELHI- 110088	निर्दलीय INDEPENDENT	बल्ला BAT
6	दिनेश कुमार DINESH KUMAR	325, गली नं -2 शालीमार गांव दिल्ली 325, GALI NO-2 SHALIMAR VILLAGE DELHI	निर्दलीय INDEPENDENT	बाल्टी BUCKET
7	रिंकी देवी RINKI DEVI	532, गली सोम बाजार, हैदरपुर गांव, दिल्ली-110088 532,GALI SOM BAZAR, HAIDERPUR VILLAGE,DELHI- 110088	निर्दलीय INDEPENDENT	बैटरी टार्च BATTERY TORCH

Place Delhi
Date: 30.4.2016

Returning Officer

प्ररूप 7क
FORM 7A
नियम 24 देखिए
[See rule 24]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
LIST OF CONTESTING CANDIDATES
67-वजीरपुर वार्ड के लिए निर्वाचन

Election to the North Delhi Municipal Corporation from Ward-67, Wazirpur

क्रम सं० Sl. No.	अभ्यर्थी का नाम Name of Candidate	अभ्यर्थी का पता Address of candidates	दल सहबद्धता Party affiliation	आबंटित प्रतीक Symbol Allotted
1	2	3	4	5
(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (i) Candidates of recognised Political Parties at National level.				
1	महेश खारी	डब्ल्यू पी-425, वजीरपुर गाँव, अशोक विहार, दिल्ली-110052	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ

	MAHESH KHARI	WP-425, WAZIRPUR VILLAGE, ASHOK VIHAR, DELHI-110052	INDIAN NATIONAL CONGRESS	HAND
2	डॉ० महेन्द्र नागपाल DR. MAHANDER NAGPAL	बी-125, अशोक विहार फेस-1, दिल्ली-110052 B-125, ASHOK VIHAR PHASE-I, DELHI-110052	भारतीय जनता पार्टी BHARATIYA JANATA PARTY	कमल LOTUS
(ii) राज्य दलों के अभ्यर्थी (ii) Candidates of State Parties.				
3	सचिन सिंघल SACHIN SINGHAL	1900 / 143, गणेश पुरा, त्रिनगर, दिल्ली-110035 1900/143, GANESH PURA, TRI NAGAR, DELHI-110035	आम आदमी पार्टी AAM AADMI PARTY	झाड़ू BROOM
(iii) अन्य अभ्यर्थी (iii) Other Candidates.				
4	जितेन्द्र कुमार अछरा JITENDER KUMAR ACHHRA	जे-114, फेस-1, अशोक विहार, दिल्ली-110052 J-114, PHASE-I, ASHOK VIHAR, DELHI-110052	निर्दलीय INDEPENDENT	बॉसुरी FLUTE
5	सुजाता गुप्ता SUJATA GUPTA	75-यू0बी0 जवाहर नगर, नियर कमला नगर, दिल्ली-7 75-U.B. JAWAHAR NAGAR, NEAR KAMLA NAGAR, DELHI-7	निर्दलीय INDEPENDENT	हीरा DIAMOND
6	सुभाष चन्द गुप्ता SUBHASH CHAND GUPTA	30 / 1, सावन पार्क एक्सटेंशन, अशोक विहार फेस-3, दिल्ली-110052 30/1, SAWAN PARK EXT, ASHOK VIHAR PHASE-III, DELHI-110052	निर्दलीय INDEPENDENT	बैटरी टार्च BATTERY TORCH
7	महेन्द्र पाल MAHENDER PAL	3503 / 2, नारंग कालोनी, दिल्ली-110035 3503/2, NARANG COLONY, TRI NAGAR, DELHI-110035	निर्दलीय INDEPENDENT	फूलगोभी CAULIFLOWER

स्थान: दिल्ली

Place: DELHI

दिनांक: 30 / 04 / 2016

Date: 30/04/2016

(तपन झा)

(TAPAN JHA)

रिटर्निंग आफिसर

RETURNING OFFICER

वार्ड-67, वजीरपुर क्षेत्र

WARD-67, WAZIRPUR

FORM - 7
List of Contesting Candidates
[See Rule 24]

Ward No. 86

Election to the North Delhi Municipal Corporation from Ward (No. & Name) 86,

Ballimaran.

S.No	Name of Candidate	Address of Candidate	Party Affiliation	Symbol allotted
I- Candidates of Recognized Political Parties at National Level				
1	उबैद खान	1498, फाटक नवाब लोहारु गली कासिमजान, बल्लीमारां, दिल्ली	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
	UBAID KHAN	1498, PHATAK NAWAB LOHARU GALI QASIMJAN, BALLIMARAN, DELHI	INDIAN NATIONAL CONGRESS	HAND
2	नितिन तिवारी	3739, मौहल्ला चरनदास, चावडी बाजार, दिल्ली-110006	भारतीय जनता पार्टी	कमल
	NITIN TIWARI	3739, MOHALLA CHARAN DASS, CHAWRI BAZAR, DELHI-110006	BHARATIYA JANATA PARTY	LOTUS
II- Candidates of State Parties				
3	मोहम्मद फहीम	1161, गली जामुन वाली, हवेली हिसामुद्दीन हैदर, बल्लीमारां, दिल्ली-110006	इंडियन युनियन मुस्लिम लीग	सीढ़ी
	MOHAMMED FAHEEM	1161, GALI JAMUN WALI, HAVELI HISSAMUDDIN HAIDER, BALLIMARAN, DELHI- 110006	INDIAN UNION MUSLIM LEAGUE	LADDER
4	मोहम्मद सादिक	2427, मैन रोड, बाजार बल्लीमारां, दिल्ली-110006	आम आदमी पार्टी	झाडू
	MOHD SADIQ	2427, MAIN ROAD, BAZAR BALLIMARAN, DELHI-110006	AAM AADMI PARTY	BROOM
III- Independents				
5	अब्बास सिद्दीकी	965-66, पटना लैन, पंजाबी फाटक, हवेली हिसामुद्दीन हैदर, बल्लीमारां, दिल्ली-110006	निर्दलीय	बैटरी टार्च
	ABBAS SIDDIQUI	965-66, PATNA LANE, PUNJABI PHATAK, HAVELI HISAMUDDIN HAIDER, BALLIMARAN, DELHI- 110006	INDEPENDENT	BATTERY TORCH

6	जेन उल आबिदिन ZENUL ABIDIN	3447, गली गुलर वाली, कुचा पंडित, लाल कुंआ, दिल्ली-110006 3447, GALI GULAR WALI, KUCHA PANDIT, LAL KUAN, DELHI-110006	निर्दलीय INDEPENDENT	सिलाई की मशीन SEWING MACHINE
7	मौ0 कज़्ज़ाफी MOHD QAZZAFI	3873, खिरकी तफज़्ज़ुल हुसैन, दरिया गंज नई दिल्ली 3873, KHIRKI TAFAZZUL HUSSAIN, DARYA GANJ, NEW DELHI	निर्दलीय INDEPENDENT	गैस सिलेण्डर GAS CYLINDER
8	रिंकी RINKI	1, कटरा गुलाम मोहम्मद, बाजार लाल कुंआ, दिल्ली 1, KATRA GHULAM MOHAMMAD, BAZAR LAL KAUN, DELHI	निर्दलीय INDEPENDENT	कॉच का गिलास GLASS TUMBLER
9	सुहैल अहमद SUHAIL AHMED	1030/9 गली चाबुक सवार, लाल कुंआ, दिल्ली-110006 1030/9 GALI CHABUK SAWAR, LAL KUAN, DELHI 110006	निर्दलीय INDEPENDENT	हीरा DIAMOND
10	सय्यद फैज़ान SAYED FAUZAN	2087, कुचा नाहर खां, दरिया गंज, दिल्ली 2087, KUCHA NAHAR KHAN, DARYA GANJ DELHI	निर्दलीय INDEPENDENT	बेन्च BENCH

Place New Delhi

Date : 30-04-16

Returning Officer

(Ward No. 86)

FORM 7**List of Contesting Candidates****[See Rule 24]****Bye-Election to the South Delhi Municipal Corporation from Ward No. 124 (Vikas Nagar)**

S. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
I - Candidates of Recognized Political Parties at National level				
1	सुनिलजिन्दल Sunil Jindal	सी-165, ग्राउन्डफ्लोर, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 C-165, Ground Floor, VikasPuri, New Delhi - 110018	भारतीय जनतापार्टी BHARATIYA JANATA PARTY	कमल LOTUS
2	राजेश यादव Rajesh Yadav	2, गाँवहस्तसाल, दिल्ली-110059 2, Hastsal Village, Hastsal, Delhi-110059	इंडियन नेशनल काँग्रेस INDIAN NATIONAL CONGRESS	हाथ HAND
II - Candidates of State Parties				
1	अशोककुमार Ashok Kumar	60, गाँवहस्तसाल, दिल्ली-110059 60, Village Hastsal, Delhi-110059	आमआदमीपार्टी AAM AADMI PARTY	झाड़ू BROOM
III - Independents				
1	ओमबीर Ombir	डी-1134, जे.जे. कॉलोनी, शिवविहार, उत्तमनगर, नई दिल्ली-110059 D-1134, J. J. Colony, Shiv Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059	निर्दलीय INDEPENDENT	मोमबत्तियाँ CANDLES
2	अतुलकुमारत्यागी Atul Kumar Tyagi	मकान न. 194, गाँवहस्तसाल, नई दिल्ली-110059 H. No. 194, Village Hastsal, New Delhi -110059	निर्दलीय INDEPENDENT	सीटी WHISTLE

S. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
3	अनिलदेवलाल Anil Devlal	मकान न. 595, ग्रुप-3, पॉकेट-सी, जनता फ्लैट्स, हस्तसाल, नई दिल्ली-110059 H. N. 595, Group-III, Pocket-C, Janta Flats, Hastsal, New Delhi - 110059	निर्दलीय INDEPENDENT	ऑटो-रिक्शा AUTO RICKSHAW
4	राकेशफोर Rakesh Phore	636/31, हस्तसालगाँव, हस्तसाल, दिल्ली 636/31, Hastsal Village, Hastsal, Delhi	निर्दलीय INDEPENDENT	बल्ला BAT
5	लालचन्द Lal Chand	बी-585, जे.जे. कॉलोनी, शिवविहार, उत्तमनगर, नई दिल्ली-110059 B-585, J. J. Colony, Shiv Vihar, Uttam Nagar, New Delhi -110059	निर्दलीय INDEPENDENT	सिलाई की मशीन SEWING MACHINE
6	भारतीसेठ Bharti Seth	सी-2/45, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, हस्तसाल, नई दिल्ली-110059 C-II/45, DDA Janta Flats, Hastsal, New Delhi - 110059	निर्दलीय INDEPENDENT	बैटरीटार्च BATTERY TORCH
7	विकाससैनी Vikas Saini	3 प्रथमतल, जी-ब्लॉक, विकासपुरी, दिल्ली-110018 3 FF, G-Block, VikasPuri, Delhi - 110018	निर्दलीय INDEPENDENT	गुब्बारा BALLOON

RAJENDAR KUMAR
Returning Officer

Place : New Delhi
Date: 30.04.2016

प्ररूप- 7
FORM 7

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
LIST OF CONTESTING CANDIDATES
(नियम 24 देखिए)
[See rule 24]

वार्ड-126 नवादा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिये निर्वाचन
Election to the South Delhi Municipal Corporation from Ward No. 126, Nawada

क्रम सं. Sr. No.	अभ्यर्थी का नाम Name of Candidate	अभ्यर्थी का पता Address of candidate	दल सहबद्धता Party affiliation	आबंटित प्रतीक Symbol allotted
1	2	3	4	5
I-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी I-Candidates of Recognized Political Parties at National level				
1.	कृष्ण गहलोट KRISHAN GAHLOT	सी-359, विकासपुरी, नई दिल्ली-18 C-359, VIKAS PURI, NEW DELHI- 18	भारतीय जनता पार्टी BHARATIYA JANATA PARTY	कमल LOTUS
2.	सत पाल सेठी SAT PAL SETHI	एफ-53, मोहन गार्डन, नई दिल्ली-59 F-53, MOHAN GARDEN, NEW DELHI-59	इंडियन नेशनल काँग्रेस INDIAN NATIONAL CONGRESS	हाथ HAND
II-राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी II-Candidates of State Parties				
1.	अजय गहलोट AJAY GAHLOT	सी-22/3, ब्लॉक-सी, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली C-22/3, BLOCK – C, MOHAN GARDEN, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-59	आम आदमी पार्टी AAM AADMI PARTY	झाड़ू BROOM
III-निर्दलीय III-Independents				
1.	जोगिन्दर सिंह JOGINDER SINGH	सी-29-30, ओम विहार, गुलाब बाग, नई दिल्ली-59 C-29-30, OM VIHAR GULAB BAGH, NEW DELHI-59	निर्दलीय INDEPENDENT	चक्की CHAKKI

2.	सुभाष चन्दर मग्गो SUBHASH CHANDER MAGGOO	ए-13, रामा पाक, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59 A-13, RAMA PARK, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-59	निर्दलीय INDEPENDENT	बाल्टी BUCKET
----	---	--	-------------------------	------------------

स्थान : नई दिल्ली

Place: NEW DELHI

तारीख : **30/04/2016**

Date: 30/04/2016

(वी. एस. तोमर)

(V.S. Tomar)

रिटर्निंग ऑफिसर

Returning Officer

वार्ड - 126, (नवादा)

Ward-126, (Nawada)

प्ररूप 7

FORM 7

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[नियम 24 देखिए]

[See rule 24]

136, मटियाला वार्ड से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए निर्वाचन

Bye Election to the South Delhi Municipal Corporation from Ward No. 136, Matiala

क्रम संख्या Sr. No.	अभ्यर्थी का नाम Name of Candidate	अभ्यर्थी का पता Address of Candidate	दल सहबद्धता Party affiliation	आबंटित प्रतीक Symbol allotted
1	2	3	4	5
I- मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी Candidates of Recognized Political Parties at National Level.				
1	अशोक शर्मा Ashok Sharma	मकान नं. 138, मटियाला गाँव, नई दिल्ली-110059 H.No. 138, Matiala Village, New Delhi-110059	भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party	कमल Lotus

2	सुधा सिन्हा Sudha Sinha	172, दिल्ली अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 15 सी, सैक्टर 22, द्वारका, नई दिल्ली-110077 172, Delhi Apartment, Plot No. 15 C, Sector 22, Dwarka, New Delhi-110077	इंडियन नेशनल काँग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand
II- राज्य दलों के अभ्यर्थी Candidates of State Parties.				
1	रमेश Ramesh	मकान नं. डी 94, नन्हे पार्क, डी ब्लॉक, मटियाला, नई दिल्ली-110059 H.No. D-94, Nanney Park, D Block, Matiala, New Delhi- 110059	आम आदमी पार्टी Aam Aadmi Party	झाड़ू Broom
III- निर्दलीय Independents				
1	अशोक Ashok	2, न्यू टी-ब्लॉक, नन्हे पार्क, मटियाला, नई दिल्ली-110059 2, New T-Block, Nanhy Park, Matiala, New Delhi-110059	निर्दलीय Independent	भिंडी Lady Finger

स्थान : नई दिल्ली

PLACE – NEW DELHI

दिनांक : 30-04-2016

DATE: - 30.04.2016

(चेतन भाटिया)
(CHETAN BHATIA)
रिटर्निंग आफिसर
RETURNING OFFICER,
136, मटियाला वार्ड
WARD NO-136, MATIALA

FORM-7

List of Contesting Candidates

[See Rule 24]

Bye-Election to the South Delhi Municipal Corporation from Ward No. 166, (Munirka).

Sr. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party affiliation	Symbol allotted
I-Candidates of Recognized Political Parties at National level				
1.	सुदेश टोकस SUDESH TOKAS	60-ए, मुनिरका गांव, नई दिल्ली - 110068 60-A, MUNIRKA VILLAGE, NEW DELHI- 110068	भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party	कमल Lotus
2.	योगिता राठी YOGITA RATHEE	मकान नंबर 248-ए, रामा मार्किट के पीछे, मुनिरका गांव, नई दिल्ली - 110067 H.NO. 248-A, BEHIND RAMA MARKET, MUNIRKA VILLAGE, NEW DELHI-110067	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand
II-Candidates of State Parties				
3.	सुनीता टोकस SUNITA TOKAS	मकान नंबर 66-ए, मुनिरका गांव, नई दिल्ली - 110067 H.NO. 66-A, MUNIRKA VILLAGE, NEW DELHI-110067	आम आदमी पार्टी Aam Aadmi Party	झाड़ू Broom

III-Independents				
4.	गीता GEETA	मकान नंबर 61, सेक्टर -5, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली-110022 H. NO. 61, SECTOR -5, RAMA KRISHNA PURAM, NEW DELHI-110022	निर्दलीय Independent	ब्लैकबोर्ड Black Board

Place :- Delhi
Date :- 30/04/2016

Returning Officer
Ward No.166, (Munirka)

फार्म संख्या 7

FORM No.7

नियम 24 देखिये

[See Rule 24]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

List of Contesting Candidates

168, नानकपुरा वार्ड से दिल्ली नगर निगम के लिए निर्वाचन

Election of the Municipal Corporation of Delhi from Ward No.168 Nanakpura

क्र. सं. Sl.No.	अभ्यर्थी का नाम Name of Candidate	अभ्यर्थी का पता Address of Candidate	दल सदस्यता Party Affiliation	आबंटित चिन्ह Symbol Allotted
I – मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी Candidates of Recognized Political Parties at National Level				
1.	ज्ञान देव गुप्ता GIAN DEV GUPTA	130, डीडीए जनता फ्लैट्स सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली-110029 130, DDA, JANTA FLATS, SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029	इंडियन नेशनल कांग्रेस INDIAN NATIONAL CONGRESS	हाथ HAND

2.	नितिन शर्मा NITIN SHARMA	377 वसंत एन्क्लेव, डीडीए फ्लैट्स, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 377 VASANT ENCLAVE DDA FLATS, VASANT VIHAR, NEW DELHI-110057	भारतीय जनता पार्टी BHARTIYA JANTA PARTY	कमल LOTUS
II- राज्य स्तर के राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी Candidate of State Parties				
1.	अनिल मालिक ANIL MALIK	53-ए, मोती बाग गांव , नई दिल्ली-110021 53-A, MOTI BAGH VILLAGE, NEW DELHI-110021	आम आदमी पार्टी AAM AADMI PARTY	झाड़ू BROOM
III- निर्दलीय Independents				
1.	अतुल पाण्डे ATUL PANDEY	185/6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110022 185/6, R.K. PURAM, NEW DELHI-110022	निर्दलीय INDEPENDENT	शेर LION
2.	राय सिंह RAI SINGH	मकान नं.4, गांव मोती बाग, नई दिल्ली-110021 H.NO.4, VILLAGE MOTI BAGH, NEW DELHI-110021	निर्दलीय INDEPENDENT	ऑटो रिक्शा AUTO RICKSHAW
3.	ऋषि RISHI	जे-274, श्री राम कैम्प, नानकपुरा, नई दिल्ली-110021 J-274, SHRI RAM CAMP, NANAKPURA, NEW DELHI-110021	निर्दलीय INDEPENDENT	टेलीविज़न TELEVISION
4.	सेल्वा राज SELVA RAJ	एस-126/177, कनक दुर्गा कालोनी, सेक्टर-12 आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022 S-126/177, KANAK DURGA COLONY, SEC-12, R. K. PURAM, NEW DELHI-110022	निर्दलीय INDEPENDENT	गुब्बारा BALLOON

स्थान:- नई दिल्ली

दिनांक:-30.04.2016

Place: - New Delhi

Date : - 30.04.2016

सहायक रिटर्निंग अधिकारी
Assistant Returning Officer

FORM 7

List of Contesting Candidates

[See Rule 20(1)]

Election of the South Delhi Municipal Corporation from
Ward No. 176 (Bhati)

क्र म सं. Sl. N o.	अभ्यर्थी का नाम Name of candidate	अभ्यर्थी का पता Address of candidates	दल सहबद्धता Party Affiliation	आवंटित प्रतिक Symbol Allotted
1	2	3	4	5

(i) राष्ट्रीय स्तर के मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी

(i) Candidates of Recognised Political Parties at National Level

1	ईश्वर सिंह	एफ-९७, हरस्वरूप कॉलोनी, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली	भारतीय जनता पार्टी	कमल
	ISHWAR SINGH	F-97, HARSWAROOP COLONY, FATEHPUR BERI, NEW DELHI	BHARATIYA JANATA PARTY	LOTUS
2	जोगिन्द्र तंवर	बी-६५, बड़ी भाटी, नई दिल्ली	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
	JOGINDER TANWAR	B-65, BARI BHATTI, NEW DELHI	INDIAN NATIONAL CONGRESS	HAND

(ii) राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी

(ii) Candidates of State Parties

3	पवन कुमार	म. न. ३९, गुजर मोहल्ला, चांदन होला गाँव, नई दिल्ली - ११००७४	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
	PAWAN KUMAR	H.NO. 39, GUJAR MOHALLA, CHANDAN HOLA VILLAGE, NEW DELHI-110074	AAM AADMI PARTY	BROOM

(iii) निर्दलीय

(iii) Independent

4	आदेश कुमार	म. न. ३७, गुजर मोहल्ला, चांदन होला गाँव, नई दिल्ली-११००७४.	निर्दलीय	बैटरी टार्च
---	---------------	---	----------	-------------

	ADESH KUMAR	H.NO. 37, GUJAR MOHALLA, CHANDAN HOLA VILLAGE, NEW DELHI-110074	INDEPENDENT	BATTERY TORCH
5	राजेन्द्र सिंह तंवर	म. न. ४२, बीच पट्टी, गांव असोला नई दिल्ली-110074	निर्दलीय	कप और प्लेट
	RAJENDER SINGH TANWAR	H.NO. 42, BICHH PATTI, VILLAGE ASOLA, NEW DELHI-110074	INDEPENDENT	CUP & SAUCER
6	धारा सिंह	ई-२३२, ई- ब्लॉक, संजय कॉलोनी भाटी माइंस, नई दिल्ली	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर
	DHARA SINGH	E-232, E-BLOCK, SANJAY COLONY BHATTI MINES, NEW DELHI	INDEPENDENT	GAS CYLINDER
7	नबाब	म. न. 32, भाटी खुर्द गाँव, नई दिल्ली-110074	निर्दलीय	दाव
	NABAB	H.NO. 32, BHATTI KHURD VILLAGE, NEW DELHI-110074	INDEPENDENT	DAO
8	यूसफ खान	म. न. 255/432, गाँव -सतबरी , नई दिल्ली 110074	निर्दलीय	ऑटो - रिक्शा
	YUSAF KHAN	H.No. 255/432, VILL-SATBARI, NEW DELHI 110074	INDEPENDENT	AUTO-RICKSHAW

Place : New
Delhi
30.04.20
Date : 16

प्रमोद कुमार
गोयल

P K Goel
रिटर्निंग
ऑफिसर
Returning
Officer
वार्ड -176
(भाटी)
Ward-176
(Bhati)
द. दि. न. नि.

फार्म 7**FORM 7**

चुनावलड़नेवालेउम्मीदवारोंकीसूची

List of Contesting Candidates

(नियम 24 देखें)

(See Rule 24)

दक्षिणी दिल्लीनगरनिगम के वार्ड सं०-199 (तेहखंड) के चुनाव के लिए

Election to the Ward No. 199-Tehkhand for South Delhi Municipal

क्र० सं० Sl.No.	उम्मीदवार के नाम Name of the candidate	उम्मीदवारकापता Address of Candidate	पार्टीसेसंबंधित Related to party	चुनावचिन्हआबंटित Allotted Electoral Symbol
-----------------------	---	--	-------------------------------------	--

Iराष्ट्रीय राजनैतिकदलों के उम्मीदवार

I Candidates of Recognized Political Parties at National level

1.	ज्ञानेन्द्र कुमार मावी Gyanender Kumar Mavi	मकान न. 999 / 9, मावीमोहल्ला, तेहखंडगांव, नई दिल्ली-20 H. NO. 999/9, MaviMohalla, Village Tehkhand, New Delhi-20	इन्डियननेशनलकांग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand
2.	सुनील कुमार वर्मा Sunil Kumar Verma	मकान न. 310, चूरीयामोहल्ला, तेहखंडगांव, नई दिल्ली-20 H. No. 310, ChuriyaMohalla, Village Tehkhand, New Delhi-20	भारतीय जनतापार्टी BhartiyaJanta Party	कमल Lotus

IIराज्य दलों के उम्मीदवार

II Candidates of State Parties

3.	अभिषेक विधुड़ी Abhishek Bidhuri	221 चूरीयामोहल्ला, तेहखंडगांव, नई दिल्ली-20 H. No. 221, ChuriyaMohalla, Village Tehkhand, New Delhi-20	आमआदमीपार्टी AamAadmi Party	झाड़ू Broom
----	------------------------------------	--	--------------------------------	----------------

III निर्दलीय उम्मीदवार

III Independents

4	अमित विधूड़ी Amit Bidhuri	एफ-263, चुरीयामोहल्ला, तेहखंडगांव, नई दिल्ली-20 F-263, ChuriyaMohalla, Village Tehkhand, New Delhi-20	निर्दलीय Independent	फूलगोभी Cauliflower
5	संजीव कुमार विधूड़ी Sanjeev Kumar Bidhuri	एफ-40, मावीमोहल्ला, तेहखंडगांव, नई दिल्ली-20 F-40, MaviMohalla, Village Tehkhand, New Delhi-20	निर्दलीय Independent	दाँतब्रूश Tooth Brush

स्थान: नईदिल्ली

Place:-New Delhi

दिनांक: 30 अप्रैल, 2016

Dated:-30th April, 2016निर्वाचन अधिकारी
RETURNING OFFICER

प्रारूप 7

नियम 24 देखिए,

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

खिचड़ी पुर वार्ड न० 214 निर्वाचन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए निर्वाचन

[FORM 7]

[See Rule 24]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the East Delhi Municipal Corporation from Ward No. 214 (Khichripur)

क्रम सं०, Sr. No.	अभ्यर्थी का नाम Name of Candidate	अभ्यर्थी का पता Address of Candidate	दल सहबद्धता Party affiliation	आबंटित प्रतीक Symbol allotted
1- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी				
I-Candidates of Recognized Political Parties at National level				
1.	आनन्द कुमार ANAND KUMAR	डी गांव, कुँआ वाला चौक, दल्लुपुरा गांव दिल्ली D VILLAGE, KUANWALA CHOWK, DALLUPURA VILLAGE, DELHI	इंडियन नेशनल काँग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand

2.	विनोद कुमार बिन्नी VINOD KUMAR BINNY	1 डी विधाता अपार्टमेन्ट वसुन्धरा इन्क्लेव दिल्ली-110096 1 D VIDHATA APARTMENT VASUNDHARA ENCLAVE DELHI-110096,	भारतीय जनता पार्टी Bhartiya Janata Party	कमल Lotus
2- राज्य दलों के अभ्यर्थी				
II-Candidates of State Parties				
3.	योगेश कुमार YOGESH KUMAR	रती राम चरनी प्रधान अनिल चौधरी बचन सिंह मौहल्ला दल्लुपुरा गांव दिल्ली-110096 RATI RAM CHARNI PRADHAN ANIL CHAUDHARY BACHAN SINGH MOHALLA DALLU PURA VILLAGE DELHI-110096	आम आदमी पार्टी Aam Aadmi Party	झाड़ू Broom
3- निर्दलीय				
III-Independents				
4.	कृपाल सिंह KRIPAL SINGH	5/404/405, रिसेटलमेन्ट कालोनी, ब्लॉक-5, खिचड़ी पुर, दिल्ली-110091 5/404/405, RESETTLEMENT COLONY, BLOCK-5, KHICHRI PUR, DELHI-110091	निर्दलीय Independent	बैटरी टार्च Battery Torch
5.	भूषण मदान BHUSHAN MADAAN	ई-327, ब्लॉक "ई" न्यू अशोक नगर दिल्ली-96 E-327, BLOCK "E" NEW ASHOK NAGAR DELHI-96	निर्दलीय Independent	एअरकंडीशनर Air Conditioner
6.	राम सागर लाल RAM SAGAR LAL	म. न0.20 महारानी दुर्गा मन्दिर वसुन्धरा इन्क्लेव दिल्ली-110096 HNO. 20 MAHARANI DURGA MANDIR VASUNDHRA ENCLAVE DELHI-110096	निर्दलीय Independent	गैस सिलेण्डर Gas Cylinder

7.	सन्दीप कुमार SANDEEP KUMAR	ए-1191, ब्लॉक-ए, डेरी फार्म, धड़ोली, दिल्ली A-1191, BLOCK-A, DAIRY FARM, GHAROLI, DELHI	निर्दलीय Independent	सिलाई की मशीन Sewing Machine
----	----------------------------------	---	-------------------------	---------------------------------------

स्थान- दिल्ली
Place- Delhi
दिनांक-30/04/2016
Date-30/04/2016

रिटर्निंग आफिसर
Returning Officer
वार्ड न०. 214 (खिचड़ी पुर)
ward No. 214 (Khichri Pur)

प्ररूप 7

FORM 7

[नियम 24 देखिए]

(See rule 24)

(निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची)

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

238, झिलमिल (सामान्य) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से उप-चुनाव के लिए निर्वाचन

Bye Election to the East Delhi Municipal Corporation from Ward No. 238, Jhilmil

क्र. संख्या S No.	अभ्यर्थी का नाम Name of Candidate	अभ्यर्थी का पता Address of Candidate	दल सहबद्धता Party Affiliation	आबंटित प्रतीक Symbol Allotted
I-	मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी			
I.	Candidates of recognized Political Parties at National Level.			
1	पंकज Pankaj	27/29, मेन रोड़, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 27/29, Main Road Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032	इंडियन नेशनल काँग्रेस INDIAN NATIONAL CONGRESS	हाथ HAND

2	जितेन्द्र सिंह शन्टी Jitender Singh Shunty	ए-55 टी एफ, ए ब्लॉक, विवेक विहार फेस-2, दिल्ली A-55 TF, A Block, Vivek Vihar Phase-II, Delhi	भारतीय जनता पार्टी BHARATIYA JANATA PARTY	कमल LOTUS
II- राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी II-Candidates of State Parties				
1	घनश्याम गौड़ Ghanshyam Gaur	19-डी, डी.डी.ए. एलआईजी फ्लैट्स, झिलमिल कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली-110095 19-D, DDA LIG Flats, Jhilmil Colony, Shahdara, Delhi-110095	आम आदमी पार्टी AAM AADMI PARTY	झाड़ू BROOM
III- अन्य अभ्यर्थी III Independents				
1	नन्द किशोर Nand Kishore	म. न०. 107, गली न०. 3, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 H.No. 107, Gali No.3, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032	निर्दलीय INDEPENDENT	बल्लेबाज BATSMAN
2	नसीम अहमद Nasim Ahmed	197, प्रताप खण्ड, विश्वकर्मा नगर, झिलमिल कॉलोनी, दिल्ली 197, Pratap Khand, Vishwakarma Nagar, Jhilmil Colony, Delhi	निर्दलीय INDEPENDENT	प्रेशर कुकर PRESSURE COOKER
3	अशोक यादव Ashok Yadav	15-डी, एम.आई.जी. फ्लैट्स, विवेक विहार फेस-2, झिलमिल, दिल्ली 15-D, M.I.G. Flats, Vivek Vihar Phase-II, Jhilmil, Delhi	निर्दलीय INDEPENDENT	गैस का चूल्हा GAS STOVE
4	संतोष कुमार शर्मा Santosh Kumar Sharma	41/2ए/2ए, गली न०.6, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 41/2A/2A, Gali No. 6, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032	निर्दलीय INDEPENDENT	बैटरी टार्च BATTERY TORCH
5	सूरज सिंह Suraj Singh	ई-80/631, राजीव कैम्प, झिलमिल कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली E-80/631, Rajeev Camp, Jhilmil Colony, Shahdara, Delhi	निर्दलीय INDEPENDENT	अलमारी ALMIRAH

**RETURNING OFFICER,
WARD NO. 238, JHILMIL**